

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 480] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर, 23 1981/कार्तिक 1, 1903
No. 480] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 1981/KARTIKA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1981

का. आ. 768(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3)
उप-खण्ड (2), तारीख 2 जुलाई, 1981 के पृष्ठ 872-873 पर प्रकाशित भारत
सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वस्त्र विभाग) (पटसन आयुक्त का कार्यालय)
की अधिसूचना सं. का. आ. 529(अ), तारीख 2 जुलाई, 1981 के हिन्दी पाठ
की अनुसूची में :—

पृष्ठ 872 पर :—

- (1) स्तम्भ 11 के नीचे, पांचवीं पंक्ति में “158.00” के स्थान पर
“158.50” पढ़ें ।

(2) स्तम्भ 10 के नीचे, 12वीं पंक्ति में, “178.00” के स्थान पर,
“178.50” पढ़ें ।

(3) स्तम्भ 4 के नीचे, 10वीं पंक्ति में, “260.00” के स्थान पर,
“260.50” पढ़ें ।

पृष्ठ 873 पर :—

स्तम्भ 5 के नीचे छठी पंक्ति में, “182.50” के स्थान पर “183.50”
पढ़ें ।

[फा. सं. 7/7/80-जूट]

ए. के. मुखर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd October, 1981

S.O. 766(E).—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) (Office of the Jute Commissioner) S.O. No. 529(E) dated the 2nd July, 1981, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd July, 1981, at page 873 in the schedule to the said notification, against Sl. No. 1 relating to Variety Tossa, in column 4, for “245.00” read “245.50”.

[F. No. 7/7/80-Jute]

CORRIGENDUM

S.O. 766A(E).—In English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, Department of Textiles (Office of the Jute Commissioner) S.O. No. 550(E) dated the 9th July, 1981 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 9th July, 1981, in the schedule,—

(i) at page 917 under column 7, in line 1, for “281.00” read “231.00”.

(ii) at page 918, under column 6, in line 3, for “213.00” read “213.50”.

[F. No. 7/7/80-Jute]

A. K. MOOKHERJEE, Jt. Secy.